



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 208) पटना, बुधवार, 28 जनवरी 2015

मुख्य अभियंता-2 पटना  
ग्रामीण कार्य विभाग  
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश

13 जनवरी 2015

सं0 82—जल सं0वि0 बिहार, पटना का पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 ज्ञापांक-124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ का पत्रांक-712 दिनांक 05.11.014 द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पूर्णियाँ का ज्ञापांक-1785/स्था0 दिनांक 24.09.014 के क्रमांक-2 द्वारा श्री सुजीत कुमार, पिता-स्व0 योगेन्द्र कुमार सिन्हा, भूतपूर्व अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त कागजात (परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जाँच के आलोक में श्री सुजीत कुमार, ग्राम+पो0 पीतबास, थाना-नौबतपुर पटना को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के अधीन वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री सुजीत कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

- स्व0 योगेन्द्र कुमार सिन्हा के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री सुजीत कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
- इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
- नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
- अगर श्री सुजीत कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकृत किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. श्री सुजीत कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन्टरमीडिएट पटना एवं मगध विश्वविद्यालय बोध गया द्वारा परीक्षाफल की सत्यता का जाँच करा लिया गया है।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,  
ई० अच्छे लाल राम,  
मुख्य अभियंता-2  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 208-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>